



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

9 फाल्गुन 1941 (श०)  
(सं० पटना 173) पटना, शुक्रवार, 28 फरवरी 2020

---

सं० 3ए-1-मुक०-61/2019-1537/वि०

वित्त विभाग

संकल्प

28 फरवरी 2020

विषय:- सी०डब्ल्यू०जे०सी० संख्या-1370/2016 भगवान शरण एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक 27/02/2019 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में दिनांक 01/01/1996 से अचिकित्सा सहायक का वेतनमान ₹4500-7000/- स्वीकृत करने के संबंध में।

दिनांक 01/01/1996 के प्रभाव से केन्द्रीय प्रास्थिति के अनुरूप वेतनमानों की अनुशंसा हेतु गठित फिटमेंट कमिटी द्वारा मात्र इन्टरमीडिएट योग्यता एवं कुछ उन्मूलन में प्रशिक्षण के आधार पर अचिकित्सा सहायक के लिए रु० 4000-6000/- से उच्चतर वेतनमान के दावे को अस्वीकृत करते हुए इनके लिए रु० 4000-6000/- वेतनमान की अनुशंसा की गई जिसे संकल्प संख्या-660, दिनांक 08/02/1999 के द्वारा स्वीकृत किया गया।

2. फिटमेंट कमिटी की अनुशंसा की त्रुटियों पर विचारण हेतु गठित फिटमेंट अपीलेट कमिटी द्वारा मैट्रिक कर्मियों के लिए रु० 4000-6000/- तथा स्नातक कर्मियों के लिए रु० 5000-8000/- की स्वीकृति को दृष्टिपथ में रखते हुये इस संवर्ग की शैक्षणिक योग्यता इन्टरमीडिएट के आधार पर रु० 4500-7000/- के वेतनमान की अनुशंसा की गयी।

3.CWJC No. 1370/2016 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश एवं फिटमेंट अपीलेंट कमिटी की अनुशंसाके आलोक में दिनांक 01/01/1996 से अचिकित्सा सहायक का वेतनमान रु० 4500-7000/- किये जाने संबंधी प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन था।

4. सम्यक् विचारोपरान्त दिनांक 01/01/1996 से अचिकित्सा सहायक का वेतनमान 4500-7000/- स्वीकृत किया जाता है। इस स्वीकृत वेतनमान का वेतन निर्धारण संकल्प संख्या-660, दिनांक 08/02/1999 में निहित प्रावधान के आलोक में किया जायेगा। इस स्वीकृति के फलस्वरूप अन्तर राशि भुगतेय होगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
राहुल सिंह,  
सचिव (व्यय)।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 173-571+10-डी०टी०पी०।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>